



COM 302

B.Com. Vth SEMESTER EXAMINATION, 2024-25

COMMERCE

(Corporate Accounting-II)

AFFIX PRESCRIBED
RUBBER STAMP

Paper ID

(To be filled in the
OMR Sheet)

Date (तिथि) : _____

1320

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures) :

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) :

Time : 1:30 Hrs.

समय : 1:30 घण्टे

Max. Marks : 75

अधिकतम अंक : 75

नोट : पुस्तिका में 50 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

Important Instructions :

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।

1. When valuing goodwill, which of the following methods is used ?
 - (A) Average Profit method
 - (B) Weighted profit method
 - (C) Super profit method
 - (D) All of the above
2. Which of the following variables has no impact on a company's goodwill ?
 - (A) The managerial effectiveness of a corporation
 - (B) Nature of business
 - (C) Customers' locations are determined by a company's customers
 - (D) None of the above
3. On an annuity basis, goodwill is computed by :
 - (A) The discounted value of predicted future benefits is added together
 - (B) Expected rate of return divided by super profit
 - (C) Multiplying the number of years purchased by the average profit
 - (D) The number of years bought multiplied by the super profits
1. जब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है ?
 - (A) औसत लाभ विधि
 - (B) भारित लाभ विधि
 - (C) सुपर लाभ विधि
 - (D) उपरोक्त सभी
2. निम्नलिखित में से कौन सा चर कम्पनी की ख्याति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ?
 - (A) किसी निगम की प्रबन्धकीय प्रभावशीलता
 - (B) व्यवसाय की प्रकृति
 - (C) ग्राहकों के स्थान कम्पनी के ग्राहकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
3. वार्षिकी के आधार पर ख्याति की गणना इस प्रकार की जाती है :
 - (A) पूर्वानुमानित भावी लाभों के छूटे हुए मूल्य को एक साथ जोड़ा जाता है
 - (B) प्रत्याशित अवधि की दर को सुपर लाभ से विभाजित किया जाता है
 - (C) खरीदे गए वर्षों की संख्या को औसत लाभ से गुणा करना
 - (D) खरीदे गए वर्षों की संख्या को सुपर लाभ से गुणा करना

4. Goodwill is referred to :
- (A) A fixed assets
(B) Realizable assets
(C) An intangible assets
(D) All of the above
5. Goodwill is paid for procuring :
- (A) Present benefit
(B) Past benefit
(C) Future benefit
(D) None of the above
6. The term normal profit relates to _____
- (A) Average profit earned
(B) Excess of average profit over super profit
(C) Profit earned in abnormal circumstance
(D) Profit earned by similar companies in the same industry
4. ख्याति को संदर्भित किया जाता है :
- (A) एक अचल सम्पत्ति
(B) वसूली योग्य सम्पत्ति
(C) अमूर्त सम्पत्ति
(D) उपरोक्त सभी
5. ख्याति का भुगतान प्राप्ति के लिए किया जाता है :
- (A) वर्तमान लाभ
(B) पिछला लाभ
(C) भविष्य का लाभ
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
6. सामान्य लाभ शब्द का सम्बन्ध है _____ से।
- (A) अर्जित औसत लाभ
(B) सुपर लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य
(C) असामान्य परिस्थिति में अर्जित लाभ
(D) समान उद्योग में समान कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ

7. Depreciation is provided on goodwill :
- (A) Diminishing balance method
- (B) Annuity method
- (C) Numerical method
- (D) Depreciation is not provided
8. Goodwill on purchase of business is :
- (A) Excess of purchase consideration on net assets
- (B) Net assets purchase consideration
- (C) $\frac{\text{Net Assets}}{\text{Purchase Consideration}}$
- (D) None of the above
9. It is essential to determine goodwill :
- (A) At the time of issue of shares
- (B) At the time of sale of company
- (C) At the time of winding up of company
- (D) At the time of forfeiture of shares
7. ख्याति पर मूल्यहास लगाया जाता है :
- (A) हासमान संतुलन विधि से
- (B) वार्षिकी विधि से
- (C) संख्यात्मक विधि से
- (D) मूल्यहास नहीं लगाया जाता है
8. व्यावसाय की खरीद पर ख्याति है :
- (A) शुद्ध परिसम्पत्तियों पर क्रय प्रतिफल की अधिकता
- (B) शुद्ध परिसम्पत्तियाँ – क्रय प्रतिफल
- (C) $\frac{\text{शुद्ध परिसंपत्तियाँ}}{\text{क्रय प्रतिफल}}$
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
9. ख्याति का निर्धारण करना आवश्यक है :
- (A) अंशों को निर्गमित करते समय
- (B) कम्पनी की बिक्री के समय
- (C) कम्पनी के समापन के समय
- (D) अंशों के हरण के समय

10. The value of goodwill is the highest of :
- (A) Dog Goodwill
(B) Rat Goodwill
(C) Cat Goodwill
(D) All the above
11. In the average profit, the reasonable remuneration to the owner of the business is :
- (A) Deducted
(B) Added
(C) Kept apart
(D) No treatment
12. Valuation of shares is necessary :
- (A) On reconstruction of company
(B) On amalgamation
(C) On absorption
(D) All the above
13. The intrinsic valuation method of share is :
- (A) Yield method
(B) Equity method
(C) Market value method
(D) All the above
10. ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है :
- (A) कुत्ते की प्रकृति की ख्याति में
(B) चूहे की प्रकृति की ख्याति में
(C) बिल्ली की प्रकृति की ख्याति में
(D) उपरोक्त सभी में
11. औसत लाभ में, व्यवसाय के मालिक को दिया जाने वाला उचित पारिश्रमिक :
- (A) घटाया जाता है
(B) जोड़ा जाता है
(C) अलग रखा जाता है
(D) कोई व्यवहार नहीं किया जाता है
12. अंशों का मूल्यांकन आवश्यक है :
- (A) कम्पनी के पुनर्निर्माण पर
(B) एकीकरण पर
(C) अवशोषण पर
(D) उपरोक्त सभी
13. अंशों का आंतरिक मूल्यांकन विधि है :
- (A) अर्जन विधि
(B) समता विधि
(C) बाजार मूल्य विधि
(D) उपरोक्त सभी

14. The nominal value of shares which is secured by the security of assets is generally :

- (A) More
- (B) Less
- (C) No relation
- (D) Equal

15. In intrinsic value method following assets are included :

- (A) Preliminary expenses
- (B) Patent
- (C) Discount on debenture
- (D) Goodwill

16. In net assets method the assets should be taken at the value in :

- (A) Book value
- (B) Amortized value
- (C) Revalued price
- (D) Normal value

14. अंशों का नाममात्र मूल्य जो परिसम्पत्तियों की सुरक्षा द्वारा सुरक्षित होता है, आम तौर पर होता है :

- (A) ज्यादा
- (B) कम
- (C) कोई सम्बन्ध नहीं
- (D) बराबर

15. आन्तरिक मूल्य विधि में निम्नलिखित परिसम्पत्तियाँ शामिल की जाती हैं :

- (A) प्रारम्भिक व्यय
- (B) पेटेंट
- (C) ऋणपत्रों पर छूट
- (D) ख्याति

16. शुद्ध परिसम्पत्ति विधि में परिसम्पत्तियों को _____ मूल्य पर लिया जाना चाहिए :

- (A) पुस्तक मूल्य
- (B) परिशोधित मूल्य
- (C) पुनर्मूल्यांकित मूल्य
- (D) सामान्य मूल्य

17. In internal reconstruction :
- (A) No company goes into liquidation
 - (B) Only one company goes into liquidation
 - (C) Two or more companies are liquidated
 - (D) One or more companies go into liquidation

18. The method of valuation of share is :

- (A) Goodwill valuation method
- (B) Income valuation method
- (C) Profit valuation method
- (D) All the above

19. The most appropriate method of valuation of shares from the point of view of investor is :

- (A) Net assets method
- (B) Income valuation method
- (C) Net assets and income method
- (D) None of the above

17. आन्तरिक पुनर्निर्माण में :

- (A) कोई भी कम्पनी परिसमापन में नहीं जाती है
- (B) केवल एक कम्पनी परिसमापन में जाती है
- (C) दो या अधिक कम्पनियों का परिसमापन किया जाता है
- (D) एक या अधिक कम्पनियाँ परिसमापन में चली जाती है

18. अंशों के मूल्यांकन की विधि है :

- (A) ख्याति मूल्यांकन विधि
- (B) आय मूल्यांकन विधि
- (C) लाभ मूल्यांकन विधि
- (D) उपरोक्त सभी

19. निवेशक के दृष्टिकोण से अंशों के मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त विधि है :

- (A) शुद्ध परिसम्पत्ति विधि
- (B) आय मूल्यांकन विधि
- (C) शुद्ध परिसम्पत्ति और आय विधि
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

20. In respect of the valuation of shares, the employed capital means :

- (A) Cost price of all the assets
- (B) Market value of all the assets
- (C) Book value of all the assets
- (D) All the above values

21. The value of per share on division of amount of net assets by number of share will be :

- (A) Intrinsic value
- (B) Book value
- (C) Cost price
- (D) Market value

22. The balance sheet method of valuation of shares is known as :

- (A) Net assets method
- (B) Assets valuation method
- (C) Assets holding method
- (D) All of these

20. अंशों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में नियोजित पूँजी का अर्थ है :

- (A) सभी परिसम्पत्तियों का लागत मूल्य
- (B) सभी परिसम्पत्तियों का बाजार मूल्य
- (C) सभी परिसम्पत्तियों का बही मूल्य
- (D) उपरोक्त सभी मूल्य

21. शुद्ध परिसम्पत्तियों की राशि को अंशों की संख्या से विभाजित करने पर प्रति अंश का मूल्य होगा :

- (A) आन्तरिक मूल्य
- (B) बही मूल्य
- (C) लागत मूल्य
- (D) बाजार मूल्य

22. अंशों के मूल्यांकन की आर्थिक चिट्ठा विधि को जाना जाता है :

- (A) शुद्ध परिसम्पत्ति विधि के नाम से
- (B) परिसम्पत्ति मूल्यांकन विधि के नाम से
- (C) परिसम्पत्ति धारण विधि के नाम से
- (D) उपरोक्त सभी

23. The formula to determine net assets will be :
- (A) Total assets - Total liability
- (B) Total assets - External liability
- (C) Realizable value of assets - External liability
- (D) Book value of assets - current liability
24. When one of the existing companies take over business of another company or companies, it is known as :
- (A) Amalgamation
- (B) Absorption
- (C) Internal Reconstruction
- (D) External Reconstruction
25. While calculating purchase price, the following values of assets are considered :
- (A) Book value
- (B) Revised value
- (C) Average value
- (D) Market values
23. शुद्ध परिसम्पत्ति निर्धारित करने का सूत्र होगा :
- (A) कुल सम्पत्ति - कुल दायित्व
- (B) कुल सम्पत्ति - बाह्य दायित्व
- (C) सम्पत्तियों का वसूली योग्य मूल्य - बाह्य दायित्व
- (D) सम्पत्तियों का बही मूल्य - चालू दायित्व
24. जब कोई मौजूदा कम्पनी किसी अन्य कम्पनी या कम्पनियों का व्यवसाय अपने हाथ में ले लेती है तो उसे कहा जाता है :
- (A) एकीकरण
- (B) अवशोषण
- (C) आन्तरिक पुनर्निर्माण
- (D) बाहरी पुनर्निर्माण
25. क्रय मूल्य की गणना करते समय परिसम्पत्तियों के निम्नलिखित मूल्यों पर विचार किया जाता है :
- (A) बही मूल्य
- (B) संशोधित मूल्य
- (C) औसत मूल्य
- (D) बाजार मूल्य

26. Shares received from the new company are recorded at :
- (A) Face value
(B) Average Price
(C) Market value
(D) None of the above
27. The amalgamation Adjustment Account appears in the books, it is shown under the heading of _____ in the balance sheet.
- (A) Reserve and Surplus
(B) Fixed Assets
(C) Investments
(D) Miscellaneous Expenditure
28. In case of amalgamation, miscellaneous expenses are shown in _____.
- (A) New Company Account
(B) Equity Shareholders Account
(C) Cash Account
(D) Realization Account
26. नई कम्पनी से प्राप्त अंशों को दर्ज किया जाता है :
- (A) अंकित मूल्य पर
(B) औसत मूल्य पर
(C) बाजार मूल्य पर
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
27. समामेलन समायोजन खाता पुस्तकों में प्रदर्शित होता है, इसे आर्थिक चिट्ठे में _____ के अन्तर्गत दिखाया जाता है।
- (A) संचय और अधिशेष
(B) स्थायी सम्पत्तियाँ
(C) विनियोग
(D) विविध व्यय
28. एकीकरण के मामले में विविध व्ययों को _____ में शामिल किया जाता है।
- (A) नया कम्पनी खाता
(B) समता अंशधारक खाता
(C) नकद खाता
(D) वसूली खाता

29. If the intrinsic values of shares exchanged are not equal, the difference is paid in :
- (A) Cash
(B) Debentures
(C) Preference Shares
(D) Assets
30. In case of _____, one existing company takes over the business of another company and no new company is formed.
- (A) Amalgamation
(B) Absorption
(C) Reconstruction
(D) None of the above
31. The assets which is not taken under the net assets method of calculating _____ purchase consideration is :
- (A) Loose Tools
(B) Bills Receivable
(C) Machinery
(D) Share issued expenses
29. यदि विनिमय किए गए अंशों के आन्तरिक मूल्य समान नहीं है, तो अन्तर का भुगतान किया जाता है :
- (A) नकद में
(B) ऋणपत्रों में
(C) अधिमान अंशों में
(D) सम्पत्तियों में
30. _____ के मामले में, एक मौजूदा कम्पनी किसी अन्य कम्पनी का व्यवसाय संभालती है और कोई नई कम्पनी नहीं बनती है।
- (A) एकीकरण
(B) अवशोषण
(C) पुनर्निर्माण
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
31. क्रय प्रतिफल की गणना की शुद्ध परिसम्पत्ति विधि के अन्तर्गत जो परिसम्पत्तियाँ नहीं ली जाती हैं, वे हैं :
- (A) ढीले उपकरण
(B) प्राप्य बिल
(C) मशीनरी
(D) अंश निर्गमित व्यय

32. In amalgamation of two companies :
- (A) Both companies lose their existence
- (B) Both companies continue
- (C) Any one company continues
- (D) None of the above
33. When purchasing company pays purchase consideration, it will be debited to :
- (A) Business purchase account
- (B) Assets account
- (C) Liquidator of vendor company's account
- (D) Purchasing company account
34. When the purchasing company bears the liquidation expenses, it will debit the expenses to :
- (A) Vendor company's Account
- (B) Bank Account
- (C) Goodwill Account
- (D) Debtors Account
32. दो कम्पनियों के विलय में :
- (A) दो कम्पनियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है
- (B) दोनों कम्पनियाँ जारी रहती हैं
- (C) कोई एक कम्पनी जारी रहती है
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
33. जब क्रय करने वाली कम्पनी क्रय प्रतिफल का भुगतान करती है, तो उसे निम्न में से डेबिट किया जाएगा :
- (A) व्यवसाय क्रय खाता
- (B) परिसम्पत्ति खाता
- (C) विक्रेता कम्पनी के परिसमापक का खाता
- (D) क्रय करने वाली कम्पनी का खाता
34. जब क्रय कर्ता कम्पनी परिसमापन व्यय वहन करती है, तो वह व्यय को निम्न में से किसमें डेबिट करेगी :
- (A) विक्रेता कम्पनी का खाता
- (B) बैंक खाता
- (C) ख्याति खाता
- (D) देनदार खाता

35. As per AS-14 purchase consideration is payable to :
- (A) Shareholders
(B) Creditors
(C) Debenture holders
(D) Bank
36. When the purchasing company does not take over a particular liability and the vendor company pays that liability, it will debit it to _____:
- (A) Realization Account
(B) Bank Account
(C) Liability Account
(D) Creditors Account
37. When the net assets are less than the purchase consideration, the difference will be :
- (A) Debited to Goodwill A/c
(B) Debited to general reserve
(C) Debited to capital reserve
(D) None of these
35. ए० एस०-14 के अनुसार क्रय प्रतिफल देय है :
- (A) अंशधारकों को
(B) लेनदारों को
(C) ऋणपत्र धारियों को
(D) बैंक को
36. जब क्रय कर्ता कम्पनी किसी विशेष दायित्व को नहीं लेती है और विक्रेता कम्पनी उस दायित्व का भुगतान करती है, तो वह उसे _____ में डेबिट कर देगी :
- (A) प्राप्ति खाता
(B) बैंक खाता
(C) दायित्व खाता
(D) लेनदार खाता
37. जब शुद्ध परिसम्पत्तियाँ खरीद मूल्य से कम होती हैं, तो अन्तर होगा :
- (A) ख्याति खाते में डेबिट
(B) सामान्य संचय में डेबिट
(C) पूँजी संचय में डेबिट
(D) इनमें से कोई नहीं

38. While calculating purchase consideration _____ values of assets is to be considered.

- (A) Book value
- (B) Revalued price
- (C) Average price
- (D) Capital

39. Net Assets minus capital reserve is :

- (A) Goodwill
- (B) Total Assets
- (C) Purchase Consideration
- (D) None of these

40. When liquidation expenses is paid and borne by seller company then it is debited to :

- (A) Bank A/c
- (B) Goodwill A/c
- (C) Realization A/c
- (D) Capital Reserve A/c

38. क्रय प्रतिफल की गणना करते समय परिसम्पत्तियों के _____ मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए।

- (A) बही मूल्य
- (B) पुनर्मूल्यांकित मूल्य
- (C) औसत मूल्य
- (D) पूँजी

39. शुद्ध परिसम्पत्ति माइनस पूँजी संचय है :

- (A) ख्याति
- (B) कुल सम्पत्तियाँ
- (C) क्रय प्रतिफल
- (D) इनमें से कोई नहीं

40. जब परिसमापन व्यय का भुगतान विक्रेता कम्पनी द्वारा किया जाता है, तो इसे डेबिट किया जाता है :

- (A) बैंक खाते में
- (B) ख्याति खाते में
- (C) वसूली खाते में
- (D) पूँजी संचय खाते में

41. The shares received from the new company is recorded at :
- (A) Face value
(B) Market value
(C) Average price
(D) None of these
42. If the market price of the shares to be given for purchase consideration at the time of absorption _____ of the shares is to be determined.
- (A) Fair value
(B) Face value
(C) Intrinsic value
(D) Yield value
43. Amalgamation of companies is governed by _____.
- (A) AS-14
(B) AS-11
(C) AS-13
(D) AS-9
41. नई कम्पनी से प्राप्त अंशों को दर्ज किया जाता है :
- (A) अंकित मूल्य पर
(B) बाजार मूल्य पर
(C) औसत मूल्य पर
(D) इनमें से कोई नहीं
42. यदि अवशोषण के समय खरीद के लिए दिए जाने वाले अंशों का बाजार मूल्य प्रतिफल है तो अंशों का _____ निर्धारित करना होता है।
- (A) उचित मूल्य
(B) अंकित मूल्य
(C) आन्तरिक मूल्य
(D) उपज मूल्य
43. कम्पनियों का विलयन _____ के द्वारा नियंत्रित होता है।
- (A) ए एस-14
(B) ए एस-11
(C) ए एस-13
(D) ए एस-9

44. The main object of amalgamation is :
- (A) To maximum common benefits
(B) To reduce internal competition
(C) To minimize common expenses
(D) All the above
45. The difference between book value of liability & actual payment of liability is transferred to _____.
- (A) Profit & Loss A/c
(B) Goodwill A/c
(C) Capital Reserve
(D) Realization A/c
46. Sundry assets are transferred to realization Account at _____.
- (A) Agreed value
(B) Book value
(C) Lower value
(D) None
47. Realization profit is credited to :
- (A) Debenture Holder's A/c
(B) Preference Shareholder's A/c
(C) Equity share holder's A/c
(D) None
44. समामेलन का मुख्य उद्देश्य है :
- (A) अधिकतम सामान्य लाभ
(B) आन्तरिक प्रतिस्पर्धा को कम करना
(C) सामान्य व्यय को न्यूनतम करना
(D) उपरोक्त सभी
45. देयता के बही मूल्य और देयता के वास्तविक भुगतान के बीच का अन्तर _____ में स्थानांतरित किया जाता है।
- (A) लाभ हानि खाता
(B) ख्याति खाता
(C) पूँजी संचय
(D) वसूली खाता
46. विविध परिसम्पत्तियों को वसूली खाते में _____ पर स्थानान्तरित किया जाता है।
- (A) सहमत मूल्य
(B) बही मूल्य
(C) कम मूल्य
(D) कोई नहीं
47. वसूली लाभ को क्रेडिट किया जाता है :
- (A) ऋणपत्र धारक के खाते में
(B) अधिमान अंशधारक के खाते में
(C) समता अंशधारक के खाते में
(D) कोई नहीं

48. 'Pooling of Interest Method' is use in amalgamation in the nature of _____.
- (A) Purchase
(B) Merger
(C) Mix
(D) Other
49. Goodwill is to be calculated at one and half year's purchase of average profit of last 5 years. Last 5 years profit is :
20000, 18000, 9000, - 2000 (loss), - 5000 (loss) : Goodwill will be :
- (A) 12,000
(B) 10,000
(C) 15,000
(D) 13,000
50. At the time of Internal reconstruction profit on revaluation of assets is credited to :
- (A) Capital Reserve A/C
(B) Share Capital A/C
(C) Assets A/C
(D) Capital Reduction A/C
48. 'पूलिंग ऑफ इंटेरेस्ट विधि' का उपयोग _____ प्रकृति के समामेलन में किया जाता है।
- (A) क्रय
(B) विलय
(C) मिश्रित
(D) अन्य
49. ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 वर्षों के क्रय पर किया जाता है। 5 वर्षों का लाभ :
20,000, 18,000, 9,000 -2000 (हानि), - 5000 (हानि) ख्याति निकालिए :
- (A) 12,000
(B) 10,000
(C) 15,000
(D) 13,000
50. आन्तरिक पुनर्निर्माण के समय सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ को क्रेडिट किया जाता है :
- (A) पूँजी संचय खाते में
(B) अंश पूँजी खाते में
(C) सम्पत्ति खाते में
(D) पूँजी कटौती खाते में
